

(2)

ई-स्टाम्प सर्टिफिकेट नम्बर IN-UP50843163404124W दिनांक 17.08.2024



Rfaud



Krishna Bhu Vikas LLP.

Designated Partner

“ओउम्”

विक्रय पत्र तादादी :- 5,40,00,000/- रुपया
स्टाम्प :- 5,92,98,000/- रुपया की मालियत पर 7 प्रतिशत
के अनुसार 41,51,860/- रुपया का देय होता है। अनुबंध पत्र दिनांक 18.12.2023 पंजीकृत
करते समय 10,80,000/- रुपया का स्टाम्प अदा किया जा चुका है। अतः अनुबंध पत्र के
समय अदा किये गये स्टाम्प शुल्क में से 10,79,900/- रुपया का स्टाम्प इस विक्रय पत्र में
समायोजित करते हुये स्टाम्प 30,71,000/- रुपया का ई-स्टाम्प सर्टिफिकेट नम्बर
IN-UP50843163404124W दिनांक 17.08.2024 के माध्यम से अदा किया जा रहा है।

सर्किल रेट :- माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी सर्किल रेट
के प्रारूप 3 पेज नम्बर 23 क्रम संख्या 6 “दरेसी से जीवनी मण्डी चौराहे तक” कॉलम नम्बर
9 कार्यालय जमीन की दर 58,000/- रुपया प्रति वर्गमीटर निर्धारित है। एक से अधिक रास्ता
होने के कारण उक्त जमीन दर में 10 प्रतिशत वृद्धि करने पर दर 63,800/- रुपया प्रति
वर्गमीटर होती है जिसके अनुसार विक्रीत सम्पत्ति जमीन क्षेत्रफल 882.16 वर्गमीटर की
मालियत 5,62,81,808/- रुपया होती है। निर्माण दर 20,000/- रुपया प्रति वर्गमीटर निर्धारित
है जिसके अनुसार कवर्ड क्षेत्रफल 150.76 वर्गमीटर की मालियत 30,15,200/- रुपया होती
है। इस प्रकार कुल मालियत 5,92,97,008/- रुपया होती है।

Rfaud



Krishna Bhu Vikas LLP.



Designated Partner

9118
10/11


2011

Designated Partner



Fraud

Designated Partner
Bhu Vikas LLP.



naul



Fraud

(3)

ई-स्टाम्प सर्टिफिकेट नम्बर IN-UP50843163404124W दिनांक 17.08.2024

वार्ड/परगना :- छत्ता वार्ड, आगरा।
मौहल्ला :- भैरों बाजार, जीवनी मण्डी, छत्ता वार्ड, तहसील व जिला आगरा।

विक्रीत जमीन का विवरण :- एक किता सम्पत्ति मय जमीन जेरीन आगरा नगर निगम नम्बर 8/390 व 8/390/1 लगायत 5 का जुज भाग तरफ पूरब जमीन क्षेत्रफल 882.16 वर्गमीटर स्थित भैरों बाजार, जीवनी मण्डी, छत्ता वार्ड तहसील व जिला आगरा जिसमें कवर्ड क्षेत्रफल 150.76 वर्गमीटर है। विक्रीत भाग सम्पत्ति साथ लगे मानचित्र में व रंग लाल से दिखलायी गयी है। एक से अधिक रास्ता व पार्क फेस नहीं है।

मापन की इकाई :- वर्गमीटर
सम्पत्ति का प्रकार :- कार्यालय
सम्पत्ति का क्षेत्रफल :- 882.16 वर्गमीटर
सड़क की स्थिति :- दरेसी से जीवनी मण्डी चौराहे तक

चौहददी :-

पूरब - सड़क जीवनी मण्डी रोड
पश्चिम - सम्पत्ति का बकिया भाग खाली जमीन
उत्तर - रास्ता
दक्षिण - अन्य सम्पत्ति

विक्रेता की संख्या (एक) प्रथमपक्ष

श्रीमती देव्यानी फौजदार उर्फ देव्यानी भार्गव पत्नी श्री साहिल फौजदार पुत्री स्व० श्री शिवराज भार्गव निवासी 252, ब्लॉक-बी, सेक्टर-92, गौतम बुद्ध नगर, उ०प्र०।

पेन-ACJPB0564F

मोबाइल- 7065530700

क्रेता की संख्या (एक) द्वितीयपक्ष

कृष्णा भू विकास एलएलपी द्वारा पार्टनर एवं अधिकृत हस्ताक्षरी विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र स्व० श्री मोतीलाल अग्रवाल निवासी एफ-4, प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा।


पेन- AAVFK5755F

मोबाइल नं. 9897007442

Krishna Bhu Vikas LLP.

Designated Partner

Dhanu



(4)

ई-स्टाम्प सर्टिफिकेट नम्बर IN-UP50843163404124W दिनांक 17.08.2024

विदित हो कि उक्त सम्पत्ति के स्वामी श्री कृष्ण प्रसाद भार्गव थे। उक्त श्री के.पी. भार्गव जी ने अपनी सम्पत्तियों की बाबत दिनांक 24 दिसम्बर 1982 को वसीयत के द्वारा मैसर्स जी जी फैमिली बेनिफिट ट्रस्ट बनाया जिसमें तेज कुमार भार्गव व शिवराज भार्गव व श्रीमती नंदिनी भार्गव व श्रीमती शिवकुमारी भार्गव को ट्रस्टी नियुक्त किया। श्री के.पी. भार्गव का स्वर्गवास दिनांक 21.01.1983 को हो गया और उनके स्वर्गवास के पश्चात् उक्त वसीयतनामा अमल में आया और उक्त अंतिम वसीयतनामा के आधार पर जिला जज आगरा द्वारा दिनांक 24.12.1987 को प्रोबेट जारी हुआ। बाद इसके वसीयतनामा में लिखित पृष्ठ संख्या 5 के क्लॉज नम्बर ई में लिखित शर्त अनुसार उक्त ट्रस्ट का अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो गया और सम्पत्ति स्वतः ही वसीयतकर्ता के उत्तराधिकारियों एवं लाभार्थियों को प्राप्त हो गयी और वसीयतनामा में लिखित लाभार्थियों में से श्रीमती शिवकुमारी भार्गव का स्वर्गवास दिनांक 07.12.1991 एवं श्रीमती नंदिनी भार्गव का स्वर्गवास दिनांक 07.08.1998ई0 हो चुका है और वर्तमान में उक्त विक्रेता प्रथमपक्ष श्रीमती देव्यानी फौजदार उक्त सम्पत्ति की एकमात्र लाभार्थी होने व स्व0 श्रीमती नंदिनी भार्गव व शिवराज भार्गव की एकमात्र वारिस होने के कारण उक्त सम्पत्ति की एकमात्र स्वामी व अधिकारी हैं और प्रथमपक्ष का नाम नगर निगम आगरा में वहसियत स्वामी दर्ज चला आता है। उक्त सम्पत्ति में सिवाये विक्रेता प्रथमपक्ष के अन्य कोई साझीदार व भागीदार विक्रेता प्रथमपक्ष का नहीं है कि जो विक्रेता प्रथमपक्ष के किसी काम में किसी प्रकार की बाधा या रुकावट उत्पन्न कर सके, बल्कि विक्रेता प्रथमपक्ष को अपनी उक्त सम्पत्ति की बाबत समस्त अधिकार स्वामित्व विक्रय आदि हर प्रकार के प्राप्त हैं। विक्रेता प्रथम पक्ष की ऊपर लिखी हुयी सम्पत्ति आज तक हर तरह के कर्जे व वार व इंतकाल व चार्ज जमानत व कुर्की व हुक्म नीलाम व मुआहिदा दैय व एक्यूटेबिल मोर्गेज आदि से पूर्ण पाक साफ एवं सुरक्षित है। कोई सरकारी या गैर सरकारी अथवा बैंक आदि का लोन नहीं है एवं किसी वित्तीय संस्थान के लोन की देनदारी में बन्धक नहीं है एवं उक्त सम्पत्ति किसी टैक्स की देनदारी में नहीं है एवं नजूल व राजकीय संस्थान की सम्पत्ति नहीं है और न ही सीलिंग विभाग द्वारा अधिगृहित की गयी है और न ही कोई मुआवजा प्राप्त किया है ऊपर लिखी सम्पत्ति की बाबत किसी भी प्रकार का कोई विवाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है बल्कि ऊपर लिखी सम्पत्ति पूर्ण रूप से पाकसाफ व निर्विवादित है।

Handwritten signature



Krishna Bhu Vikas LLP.



Handwritten signature

Designated Partner

(5)

ई-स्टाम्प सर्टिफिकेट नम्बर IN-UP50843163404124W दिनांक 17.08.2024

विक्रेता प्रथमपक्ष ने उक्त सम्पत्ति के बेचने का सौदा जरिये अनुबंध पत्र दिनांक 18.12.2023 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उप निबंधक तृतीय आगरा बही नं.1 जिल्द 11936 सफा 387/398 नम्बर 10650 पर व तारीख 19.12.2023 हुयी है उक्त द्वितीयपक्ष से 5,40,00,000/-रुपया में किया हुआ है। अब विक्रेता प्रथमपक्ष सरायत इकरारनामा के तहत विक्रय पत्र करने को तैयार है और क्रेता द्वितीयपक्ष विक्रय पत्र कराने को तैयार है।

अतः विक्रेता प्रथमपक्ष ने अपनी ऊपर लिखी सम्पत्ति मय जमीन जेरीन आगरा नगर निगम नम्बर 8/390 व 8/390/1 लगायत 5 का जुज भाग तरफ पूरब क्षेत्रफल 882.16 वर्गमीटर को मय मौजूदा निर्माण के, को मय समस्त मालिकाना अधिकार व आधिपत्य सहित मय नामांकन अधिकारों के स्वेच्छा एवं प्रसन्नता पूर्वक विला किसी दबाव नाजायज के खूब सोच समझकर अपने परिवारीजन से सलाह व मशबिरा करते हुये व अपना हित व लाभ देखते हुये बाजारी कीमत से व एवज 5,40,00,000/- रुपया (पाँच करोड चालीस लाख रुपया) कि आधे जिसके 2,70,00,000/- रुपया (दो करोड सत्तर लाख रुपया) होते हैं बदस्त कृष्णा भू विकास एलएलपी द्वारा पार्टनर एवं अधिकृत हस्ताक्षरी विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री मोतीलाल अग्रवाल क्रेता द्वितीयपक्ष उक्त को कतई वैय कर दिया और बेच दिया।

कीमत के कुल 5,40,00,000/- रुपया विक्रेता प्रथमपक्ष ने क्रेता द्वितीयपक्ष से निम्न प्रकार प्राप्त किये:-

- 1- 30,00,000/-रुपया RTGS दिनांक 16.12.2023 UTR No. IBKL231216683980
- 2- 15,00,000/-रुपया RTGS दिनांक 18.05.2024 UTR No. IBKLR92024051800002882
- 3- 2,35,00,000/-रुपया बैंक संख्या 392232 दिनांक 20.07.2024 आई.डी.बी.आई. बैंक शाखा संजय प्लेस, आगरा।
- 4- 50,00,000/-रुपया RTGS दिनांक 16.08.2024 UTR No. IBKLR92024081600044634
- 5- 50,00,000/-रुपया बैंक संख्या 392260 दिनांक 25.06.2025 आई.डी.बी.आई. बैंक शाखा संजय प्लेस, आगरा।




Krishna Bhu Vikas LLP.




Designated Partner

(6)

ई-स्टाम्प सर्टिफिकेट नम्बर IN-UP50843163404124W दिनांक 17.08.2024

6- 1,00,00,000/-रुपया चैक संख्या 392261 दिनांक 10.07.2025 आई.डी.बी.आई. बैंक शाखा संजय प्लेस, आगरा।

7- 54,07,020/-रुपया चैक संख्या 392263 दिनांक 25.07.2024 आई.डी.बी.आई. बैंक शाखा संजय प्लेस, आगरा।

8- 30,303/-रुपया TDS जरिये CHALLAN No. 11533 दिनांक 18.12.2023 BSR CODE 0002271 जमा कराया।

9- 5,62,677/-रुपया TDS जरिये CHALLAN No. 00644 दिनांक 17.08.2024 BSR CODE 0002271 जमा कराया।

कुल योग:- 5,40,00,000/-रुपया।

उक्त प्राप्ति का इकवाल विक्रेता प्रथम पक्ष समक्ष निबंधन अधिकारी करती हैं। वक्त रजिस्ट्ररी कुछ पाना बाकी नहीं रहा है। अब बावत कीमत विक्रेता प्रथमपक्ष का व जिम्मे क्रेता द्वितीयपक्ष से कुछ पाना बाकी नहीं रहा न आयन्दा होगा।

विक्रेता प्रथम पक्ष ने कब्जा व दखल विक्रीत सम्पत्ति पर वाकई खाली पर क्रेता द्वितीयपक्ष को देते हुये व क्रेता द्वितीयपक्ष का कराते हुए क्रेता द्वितीयपक्ष को विक्रीत सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी व अधिकारी बना दिया। अब विक्रीत सम्पत्ति में कोई हक व अधिकार विक्रेता प्रथमपक्ष व उनके उत्तराधिकारियों का बाकी नहीं रहा। आज से समस्त अधिकार स्वामित्व विक्रेता प्रथमपक्ष की ओर से विक्रय होकर क्रेता द्वितीयपक्ष को प्राप्त हो गये। क्रेता द्वितीयपक्ष चाहे जैसे लाभ उठावे और जो चाहे सो करे। हस्व मर्जी अपने तरमीम, मरम्मत व तामीरात आदि करावे, नल बिजली कनेक्शन प्राप्त करे, स्वयं आबाद रहे या किराये पर उठावे आवश्यकतानुसार रहन व वैय आदि जो चाहे सो करें या जिस प्रकार मुनासिब समझे विक्रीत सम्पत्ति से लाभान्वित हों। विक्रेता प्रथमपक्ष द्वारा क्रेता द्वितीयपक्ष को विक्रीत सम्पत्ति की बावत गुडटाईटिल की पूरी गारन्टी दी जाती है।

Dfauzdar



Krishna Bhu Vikas LLP.



Designated Partner

आवेदन सं०: 202400766052114

विक्रय पत्र


बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 7568

वर्ष: 2024

प्रतिफल- 54000000 स्टाम्प शुल्क- 3071000 बाजारी मूल्य - 59298000 पंजीकरण शुल्क - 592980 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 593040

श्री कृष्णा भू विकास एलएलपी द्वारा
विनोद कुमार अग्रवाल अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री स्व० श्री मोतीलाल अग्रवाल
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: एफ-4, प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा।



श्री, कृष्णा भू विकास एलएलपी द्वारा

विनोद कुमार अग्रवाल अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 17/08/2024
एवं 04:11:54 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्र० राकेश कुमार यादव

उपनिबंधक :सदर तृतीय

आगरा

17/08/2024

अखिलेश कुमार सक्सेना

निबंधक लिपिक

17/08/2024



प्रिंट करें

(7)

ई-स्टाम्प सर्टिफिकेट नम्बर IN-UP50843163404124W दिनांक 17.08.2024


अगर विक्रीत सम्पत्ति विक्रेता प्रथमपक्ष के किसी साझीदार या भागीदार या वारिस या विधिक प्रतिनिधि के दावा व झगड़ा करने के कारण कब्जा कुल या उसका कोई अंश किसी प्रकार क्रेता द्वितीयपक्ष के अधिकार व आधिपत्य व स्वामित्व या कब्जे से निकल जावे या विक्रेता प्रथमपक्ष की मिल्कियत में कोई कानूनी कमी पायी जावे या कोई वार या चार्ज पाये जाने के कारण किसी को कुछ देना या खर्च करना पड़े तो उस कुल की जबावदेही व जिम्मेदारी व अदा करना जरेसमन मय लागत हर्जा व खर्चा मय सूद कानूनी के जिम्मे जात खास व जायदाद हर किस्म विक्रेता प्रथमपक्ष व उनके उत्तराधिकारियों के है और आयन्दा होगी। ऐसी प्रत्येक दशा में क्रेता द्वितीयपक्ष अपना तमाम रुपया जिस प्रकार चाहे वसूल कर लेवे जिसमें विक्रेता प्रथमपक्ष व उनके उत्तराधिकारियों को कुछ उजर व एतराज न होगा।

आज तक के जो सरकारी देय व टैक्स व चार्ज बिजली आदि बकाया होंगे उनको अदा करने के जिम्मेदारी विक्रेता प्रथमपक्ष की है व रहेगी। आज के बाद के सरकारी देय व टैक्स व चार्ज बिजली आदि आयद होंगे उनको क्रेता द्वितीयपक्ष अदा करेंगे। क्रेता द्वितीयपक्ष अपने नाम का नामांकन समस्त सरकारी विभागों में वहैसियत स्वामी अंकित करा लेंगे। विक्रेता प्रथमपक्ष अपनी सहमति प्रदान करती हैं।

इस विक्रय पत्र के सम्बन्ध में भविष्य में किसी शपथ पत्र या पूरक पत्र या अन्य किसी विलेख की आवश्यकता होगी तो विक्रेता प्रथमपक्ष क्रेता द्वितीयपक्ष के मांग व खर्चे पर निष्पादित करने व निबन्धित कराने के लिये पाबन्द रहेंगी।

इस विक्रय पत्र का स्टाम्प शुल्क विक्रेता प्रथमपक्ष ने वहन किया है।

Hauzdar



Krishna Bhu Vikas LLP.



Tanvir
Designated Partner

आवेदन सं०: 202400766052114

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 7568

वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्रीमती देव्यानी फौजदार उर्फ देव्यानी भार्गव, पत्नी श्री साहिल फौजदार

निवासी: 252, ब्लॉक-बी, सेक्टर-92, गौतम बुद्ध नगर, उ०प्र०।

व्यवसाय: अन्य

D Fauzdar




क्रेता: 1

श्री कृष्णा भू विकास एलएलपी के द्वारा विनोद कुमार अग्रवाल, पुत्र श्री स्व
श्री मोतीलाल अग्रवाल

निवासी: एफ-4, प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा।

व्यवसाय: व्यापार

D Agrwal



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री साहिल फौजदार, पुत्र श्री देवेन्द्र फौजदार

निवासी: 252, ब्लॉक-बी, सेक्टर-92, गौतम बुद्ध नगर, उ०प्र०।

व्यवसाय: अन्य

Sahu



पहचानकर्ता: 2

श्री मनोज कुमार वर्मा, पुत्र श्री मुन्ना बाबू वर्मा

निवासी: संजय कॉलोनी, सासनी हाथरस।

व्यवसाय: अन्य

M Kumar



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्र० राकेश कुमार शर्मा

उप निबंधक : सदर तृतीय

आगरा

17/08/2024

अखिलेश कुमार सक्सेना

निबंधक लिपिक आगरा

17/08/2024

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के विशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी :

प्रिंट करें

(8)

ई-स्टाम्प सर्टिफिकेट नम्बर IN-UP50843163404124W दिनांक 17.08.2024

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे। तहरीर दिनांक 17.08.2024 दस्तावेज मुकिरान के कथनानुसार तहरीर किया गया कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। पक्षकारान की पहचान निम्न गवाहान ने की है व मसौदा संजीव अग्रवाल एडवोकेट सदर तहसील आगरा।

Stauzdar



Krishna Bhu Vikas LLP.



Designated Partner



Sahil

गवाह- साहिल फौजदार पुत्र श्री देवेन्द्र फौजदार निवासी 252, ब्लॉक-बी, सेक्टर-92, गौतम बुद्ध नगर, उ0प्र0। मोबाइल-9899284443

गवाह- मनोज कुमार वर्मा पुत्र श्री मुन्ना बाबू वर्मा निवासी संजय कॉलोनी सासनी हाथरस।
मोबाइल- 9690020221

M. Kumar



आवेदन सं०: 202400766052114

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 12258 के पृष्ठ 29 से 46 तक क्रमांक 7568 पर दिनांक 17/08/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

नाम-पुत्र/पुत्री-
 10600/2023
 जन्म दिना- 10.80.000
 पता- 7568/2024
 जन्म दिना- 30.10.000
 पता- 4151000
 17-8-2024

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

~~प्र० राकेश कुमार यादव~~
 उप निबंधक : सदर तृतीय

आगरा
 17/08/2024




प्रिंट करें

SITE PLAN PART OF PROPERTY N.M.No- 8/390 & 8/390/1-5
SITUATED AT BHAIRO BAZAR JEDNI MANDI AGRA


SELLER:- Smt DEVYANI FAUZDAR ALIAS DEVYANI BHARGAV

PURCHASER:- KRISHNA BHU VIKAS LLP

LAND AREA = 882.16 Soms
COVERED AREA = 150.76 Soms
(SHOWN BY RED COLOUR)



Fauzdar



Krishna Bhu Vikas LLP.



Designated Partner

Deshermal

D. K SHARMA
D/MAN
28/530, Kans Gate
Gokul Pura Agra

7568/24

7568/24

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सदर तृतीय आगरा क्रम संख्या 2024003015055

आवेदन संख्या : 202400766052114

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 2024-08-17 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम विनोद कुमार अग्रवाल

लेख का प्रकार विक्रय पत्र

प्रतिफल की धनराशि 54000000 / 59298000.00

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 592980

2. प्रतिलिपिकरण शुल्क 60

3. निरीक्षण या तलाश शुल्क

4. मुह्तार के अधिप्रमाणी करण लिए शुल्क

5. कमीशन शुल्क

6. विविध

7. यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 593040

शुल्क वसूल करने का दिनांक 2024-08-17 00:00:00

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2024-08-17 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उपनिबन्धक तृतीय
आगरा

भाग 1

भाग 1 की प्रतिलिपि पर फिर से लगाया जाने वाला

उपनिबन्धक सदर तृतीय आगरा क्रम संख्या 2024003015055

आवेदन संख्या : 202400766052114

अधिनियम 16 1908 की धारा 52 के अधीन रसीद

प्रस्तुतकर्ता या प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थी का नाम

विनोद कुमार अग्रवाल

निष्पादक का नाम विनोद कुमार अग्रवाल

लेख का प्रकार विक्रय पत्र

प्रतिफल की धनराशि 54000000

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 2024-08-17 00:00:00

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि

या तलाश प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2024-08-17 00:

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उपनिबन्धक तृतीय
आगरा